



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-20042024-253800
CG-DL-W-20042024-253800

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14]

नई दिल्ली, अप्रैल 14,—अप्रैल 20, 2024, शनिवार/ चैत्र 25—चैत्र 31, 1946

No. 14]

NEW DELHI, APRIL 14,—APRIL 20, 2024, SATURDAY/CHAITRA 25—CHAITRA 31, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 46.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता (सिविल इंजीनियरी), सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) और उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी) भर्ती नियम 2016 को, जहां तक उनका संबंध उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया

गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु, में उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु, उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता - वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी) | 4 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय। | स्तर-11 (67700-208700/- रुपये)। | चयन पद। | 40 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1.- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। |

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।

(7)

आवश्यक:

(क) अर्हता:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक; या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर।

(ख) अनुभव:- (i) स्नातक डिग्री धारक के लिए - किसी भी सरकारी विभाग या संगठन में बंदरगाह परियोजनाओं और समुद्री संरचनाओं के डिजाइन में चार वर्ष का अनुभव।

(ii) स्नातकोत्तर डिग्री धारक के लिए - किसी भी सरकारी विभाग या संगठन में बंदरगाह परियोजनाओं और समुद्री संरचनाओं के डिजाइन में दो वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:

(क) अर्हता: - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से तटीय और हार्बर इंजीनियरी या महासागर इंजीनियरी या समुद्री इंजीनियरी में मास्टर डिग्री।

(ख) अनुभव:- शून्य

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता लेखबद्ध किए गए कारणों के साथ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|--|---|
| (8) | (9) | (10) |
| आयु: - लागू नहीं होता | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, एक वर्ष। | 25% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। |
| शैक्षणिक अर्हता: - लागू नहीं होता | | 75% सीधी भर्ती द्वारा। |

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रोन्नति :-

वेतन मैट्रिक्स (56100-177500/- रुपये) के स्तर-10 में सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी), ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से तटीय इंजीनियरी या संरचना या भू-क्षरण और संरक्षण कार्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या

पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति:-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी:

(क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100 – 177500/- रुपये) या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा; या

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण (1):- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण (2):- प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य ब्राह्म कैंडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण (3):- प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|--|---|
| (12) | (13) |
| <p>(क) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: -</p> <p>(1) संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय – अध्यक्ष;</p> <p>(2) मात्स्यिकी विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय – सदस्य;</p> <p>(3) निदेशक केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु – सदस्य।</p> <p>(ख) समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें शामिल हैं: -</p> <p>(1) संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय – अध्यक्ष;</p> <p>(2) मात्स्यिकी विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय – सदस्य;</p> <p>(3) केन्द्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु के निदेशक – सदस्य।</p> | <p>सीधी भर्ती तथा प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p> |

[फा. सं. 4-14/2016-प्रशा. V (ई. एफ. 2680)]

कृष्ण पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**(Department of Fisheries)**

New Delhi, the 5th April, 2024

G.S.R. 46.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore Junior Engineer, Assistant Engineer (Civil Engineering), Assistant Director (Civil Engineering) and Deputy Director (Civil Engineering) Recruitment Rules 2016, in so far as they relate to the posts of Deputy Director (Civil Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Civil Engineering) in the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru Deputy Director (Civil Engineering) recruitment Rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post & classification and scale of pay.**— The number of post & its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of Post | Number of posts | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|-------------------------------------|---|--|--------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Deputy Director (Civil Engineering) | 4(2024) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group A Gazetted, Non-Ministerial | level 11 (Rs. 67700-208700/-). | Selection Post. | Not exceeding forty years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government. Note 1. —The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission |

| Educational and other qualifications required for direct recruits. | | |
|---|--|--|
| (7) | | |
| Essential: | | |
| (A) Qualification: Bachelor Degree in Civil Engineering of a recognised University or Institute; or Masters Degree in Civil Engineering of a recognised University or Institute. | | |
| (B) Experience:- (i) For Bachelor degree holder.- four years experience in harbour projects and design of maritime structures in any government department or organisation | | |
| (ii) For Master degree holder.- two years experience in harbour projects and design of maritime structures in any government department or organization; and | | |
| Desirable: | | |
| (A) Qualification:- Masters Degree in Coastal and Harbor Engineering or Ocean Engineering or Marine Engineering of a recognised University or Institute. | | |
| (B) Experience:- Nil | | |
| Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. | | |
| Note 2:- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. | | |

| Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|---|------------------------------------|--|
| (8) | (9) | (10) |
| Age:- No Educational Qualification:- No | One year, for direct recruits. | 25 percent by promotion failing which deputation 75 percent by direct recruitment. |

| In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made. |
|--|
| (11) |
| Promotion:- |
| Assistant Director(Civil Engineering) in level 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in Coastal Engineering or Structures or Erosion and Protection work from a recognised institute. |
| Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. |
| Deputation:- |
| Officers under the Central or Stage Governments or Union Territory Administration: |
| (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or |
| (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and |
| (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). |
| Note 1:- The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. |

Note 2:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | |
|---|------------|
| (12) | |
| (A) Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- | |
| (1) Joint Secretary(Administration), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | -Chairman; |
| (2) Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | -Member; |
| (3) Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore | -Member. |
| (B) Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- | |
| (1) Joint Secretary (Administration), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | -Chairman; |
| (2) Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying | -Member; |
| (3) Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru | - Member. |

| Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|
| (13) |
| Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation. |

[F. No. 4-14/2016-Admn.V(E.F. 2680)]

KRISHAN PAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2024

सा.का.नि. 47.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता (सिविल इंजीनियरी), सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) और उप निदेशक (सिविल इंजीनियरी) भर्ती नियम 2016 को, जहां तक उनका संबंध सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु, में सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु, सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**-पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**-भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.-वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.-जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी भी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.-इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन अथवा अचयन पद | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा। |
|--------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) | 3 (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय। | स्तर-10 (56100-177500 रुपये)। | चयन पद | 35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण 1.-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी। |

| सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|-------------------------------|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| आवश्यक: (क) अर्हता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल | नहीं | एक वर्ष | 33% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा 67% सीधी भर्ती द्वारा |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; या सिविल इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।</p> <p>(ख) अनुभव: (i) स्नातक डिग्री धारकों के लिए - किसी भी सरकारी विभाग या संगठन में बंदरगाह परियोजनाओं और समुद्री संरचनाओं के डिजाइन में दो वर्ष का अनुभव; और</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर डिग्री धारक के लिए: शून्य।</p> <p>टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता लेखबद्ध किए गए कारणों के साथ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के संदर्भ में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p> | | | |
| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दिशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा। | | | |
| (11) | | | |
| <p>प्रोन्नति :-</p> <p>वेतन मैट्रिक्स (44,900-1,42,400/- रुपये) के स्तर-7 में सहायक अभियंता (सिविल), ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से तटीय इंजीनियरी या संरचना या भू-क्षरण और संरक्षण कार्य में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।</p> <p>टिप्पण 1: इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पर नियमित आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए, सहायक निदेशक (सिविल इंजीनियरी) के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष तक जारी रहेगी।</p> <p>टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति:-</p> <p>केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी:</p> <p>(i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या</p> <p>(ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100 – 167800/- रुपये) या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा; या</p> <p>(iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600 – 151100/- रुपये) या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के</p> | | | |

पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा; या

(iv) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900 – 142400/- रुपये) या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में पाँच वर्ष की नियमित सेवा; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव होना चाहिए।

टिप्पण (1): पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण (2): प्रतिनियुक्ति की अवधि केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण (3): प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|--|
| (12) | (13) |
| <p>(I) विभागीय प्रोन्नति समिति:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष; 2. मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के संयुक्त सचिव (प्रशासन), - सदस्य; 3. मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मात्स्यिकी विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी), - सदस्य; और 4. केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु के निदेशक - सदस्य। <p>(II) विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें सम्मिलित शामिल हैं:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त सचिव (प्रशासन), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय - सदस्य; 2. मात्स्यिकी विकास आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (मात्स्यिकी), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय - सदस्य; और 3. निदेशक, केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान, बंगलुरु - सदस्य। | <p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p> |

[फा. सं. 4-14/2016-प्रशा.V (ई. एफ. 2680)]

कृष्ण पाल, अवर सचिव

New Delhi, the 5th April, 2024

G.S.R. 47.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore Junior Engineer, Assistant Engineer (Civil Engineering), Assistant Director (Civil Engineering) and Deputy Director (Civil Engineering) Recruitment Rules 2016, in so far as they relate to the posts of Assistant Director (Civil Engineering), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Civil Engineering) in the Central Institute of

Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bengaluru Assistant Director (Civil Engineering) recruitment rules, 2024.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post & classification and scale of pay.**— The number of posts & its classification and the level in the Pay Matrix attached thereto, shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person.-
(a) who has entered into or contracted a marriage with the person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of Post | Number of posts | Classification | Level in pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|------------------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Assistant Director (Civil Engineering). | 3(2024) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group A Gazetted, Non-Ministerial. | level-10(Rs.56100-177500/-). | Selection Post | Not exceeding thirty-five years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. —The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes | Period of probation, if any | Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods |
|--|---|-----------------------------|--|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Essential: (A) Qualification: Bachelors Degree in Civil Engineering; or Masters Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute. | No. | One year. | 33% by promotion failing which by deputation. 67% by direct recruitment. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>(B) Experience: (i) For bachelor degree holders.- two years experience in harbor projects and design of maritime structures in any Government department or organization; and</p> <p>(ii) For Masters degree holder: Nil.</p> <p>Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> | | | |
|--|--|--|--|

| In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made. | |
|---|--|
| (11) | |
| <p>Promotion:-</p> <p>Assistant Engineer (Civil) in level-7 (Rs.4 4,900-1,42,400/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed two weeks training in Coastal Engineering or Structures or Erosion and Protection work from a recognised training institute.</p> <p>Note 1: For persons holding the post of Assistant Engineer (Civil) on regular basis on the date of notification of these rules, the eligibility service for promotion to the post of Assistant Director (Civil Engineering) shall continue to be three years.</p> <p>Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p> <p>Deputation:-</p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations:</p> <p>(A)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-9 (Rs. 53100-167800/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iii) with four years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or</p> <p>(iv) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-7(Rs. 44900-142400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and</p> <p>(B) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruitment under column (7).</p> <p>Note (1): The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> | |

Note (2): The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed three years.

Note (3): The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition. | Circumstance in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. |
|---|--|
| (12) | (13) |
| <p>(I) Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman; Joint Secretary (Administration), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying – Member; Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying – Member; and Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore – Member. <p>(II) Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> Joint Secretary (Administration), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying – Member; Fisheries Development Commissioner or Joint Commissioner (Fisheries), Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying – Member; and Director, Central Institute of Coastal Engineering for Fishery, Bangalore – Member. | <p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p> |

[F. No. 4-14/2016-Admn.V (E.F.2680)]

KRISHAN PAL, Under Secy.